



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 51-2021] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 21, 2021 (AGRAHAYANA 30, 1943 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

आदेश

दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

संख्या 2/7/1996-2 गृह (गोपनीय).— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, राज्य में सम्भावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतुष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन जिलाधीशों को तुरन्त कार्यवाही करने हेतु प्रधिकृत करना आवश्यक है।

इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां हरियाणा राज्य के सभी जिलाधीशों द्वारा भी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, दिनांक 12/12/2021 से 11/03/2022 तक तीन मास की अवधि के लिए प्रयोग की जा सकेंगी।

चण्डीगढ़:

दिनांक 10 दिसम्बर, 2021.

राजीव अरोड़ा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

9403—C.S.—H.G.P., Pkl.